



**गेल (इंडिया) लिमिटेड**

(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)

**GAIL (India) Limited**

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,  
16 भीकाएजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, भारत  
GAIL BHAWAN,  
16 BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA  
फोन/PHONE: +91 11 26182955  
फैक्स/FAX: +91 11 26185941  
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2023

03.05.2023

लिस्टिंग कम्प्लायंस

बीएसई लिमिटेड

प्रथम तल, फिरोज जीजीभाँय टावर्स

दलाल स्ट्रीट

मुंबई -400001

स्क्रिप कोड: 532155

**विषय: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत दायर निगमित घोषणा के लिए आवश्यक अतिरिक्त विवरण - गुजरात बिक्री कर विभाग द्वारा दायर एसएलपी को खारिज करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश**

महोदय/महोदया,

यह दिनांक 02.05.2023 के ई-मेल के संदर्भ में है।

सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2023 को निर्णय सुनाया गया था और दिनांक 28.04.2023 के आदेश की प्रमाणित प्रति अभी तक कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उक्त आदेश दिनांक 28.04.2023 की प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट से दिनांक 01.05.2023 को डाउनलोड की गई थी। तदनुसार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में आवश्यक प्रकटीकरण उसी दिन अर्थात् 01.05.2023 को बनाया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है, इस प्रकार दिनांक 28.04.2023 के इम्प्युंड आर्डर के कारण कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

यह अवगत कराया जाता है कि इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर जानकारी प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 07.08.2018 के पत्र की स्कैन प्रति एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी

तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर दिनांक 16.05.2005 को होस्ट की गई जानकारी आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

धन्यवाद,

भवदीय

*महेश*

(महेश कुमार अग्रवाल)

कंपनी सचिव

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार



गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)

**GAIL (India) Limited**

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,  
16 भीकाजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, इंडिया  
GAIL BHAWAN,  
16 BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA  
फोन/PHONE: +91 11 26182955  
फैक्स/FAX: +91 11 26185941  
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2018

7<sup>th</sup> August, 2018

Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai - 400051

Listing Department  
BSE Limited  
Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai - 400001

**Sub.: ANNOUNCEMENT - DECISION OF GUJARAT HIGH COURT ON LEVY  
OF SALES TAX ON INTERSTATE SALE OF NATURAL GAS**


Dear Sir,

This is in compliance of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Please find attached herewith the disclosure regarding Decision of Gujarat High Court on levy of sales tax on interstate sale of natural gas.

The above is for your information and records.

Thanking you,  
Yours faithfully,

  
(A.K. Jha)  
Company Secretary

**Gail India - GSTT sets aside Sales Tax Demand**

Security Code: 532155 Company: GAIL (INDIA) LTD.

Exchange Designated Time: 10052005 16:32:07

Gail India Ltd has announced that in a landmark judgment, Gujarat Sales Tax Tribunal (GSTT), Ahmedabad, has set aside Sales Tax Demand of Rs 49,620 million on the Company. The order passed on May 16, 2005, has upheld the stand of the Company that transportation of natural gas by the Company from Gujarat to other states amounts to 'Stock Transfer' and not 'Inter State sale'.

The judgment pronounced in favour of the Company and will sizably reduce the Contingent Liability of the Company. The Company protested the demand of Rs 49,620 million raised by the Sales Tax Department of Gujarat State. The central issue was about the transmission of Natural Gas from Gujarat to other states, which Gujarat Sales Tax Department claimed it as inter state sale and assessed the tax provisionally and passed order u/s 41B. The Company carries gas from Gujarat to other states under its ownership and transfers the ownership at the custody transfer point and claim it as Stock Transfer.

The dispute on the demand of sales tax by Gujarat Sales Tax Department pertained to the period 1994-95 to 2000-01. Initially, the Company contested the case at Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court transferred the case to the State Tribunal on the ground that the issue did not involve pure question of Law. The tribunal after verifying the process involved for transmission of gas, has set aside the demand of the Sales Tax Department and ordered to make regular assessment u/s 41, considering the transfer of gas from Gujarat to other states as Stock Transfer. The Company carries almost 85 % of the gas from Gujarat to various states under its ownership.



Gail India Ltd has announced that in a landmark judgment, Gujarat Sales Tax Tribunal (GSTT), Ahmedabad, has set aside Sales Tax Demand of Rs 49,620 million on the Company. The order passed on May 16, 2005, has upheld the stand of the Company that transportation of natural gas by the Company from Gujarat to other states amounts to 'Stock Transfer' and not 'Inter State sale'.

The judgment pronounced in favour of the Company and will sizably reduce the Contingent Liability of the Company. The Company protested the demand of Rs 49,620 million raised by the Sales Tax Department of Gujarat State. The central issue was about the transmission of Natural Gas from Gujarat to other states, which Gujarat Sales Tax Department claimed it as inter state sale and assessed the tax provisionally and passed order u/s 41B. The Company carries gas from Gujarat to other states under its ownership and transfers the ownership at the custody transfer point and claim it as Stock Transfer.

The dispute on the demand of sales tax by Gujarat Sales Tax Department pertained to the period 1994-95 to 2000-01. Initially, the Company contested the case at Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court transferred the case to the State Tribunal on the ground that the issue did not involve pure question of Law. The tribunal after verifying the process involved for transmission of gas, has set aside the demand of the Sales Tax Department and ordered to make regular assessment u/s 41, considering the transfer of gas from Gujarat to other states as Stock Transfer. The Company carries almost 85 % of the gas from Gujarat to various states under its ownership.